



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 427) पटना, शुक्रवार, 19 मई 2023

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना
17 मई 2023

सं० प्र०2वि०1-23/2022/2109—खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-5235 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा श्री राकेश पति तिवारी की नियुक्ति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बक्सर में की गयी थी। अधिसूचना की कंडिका-4 में वर्णित है कि अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से सात कार्य दिवसों के अंदर योगदान नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी का दावा निरस्त समझा जाएगा एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. विभागीय पत्रांक 5641 दिनांक 13.12.2022 द्वारा श्री राकेश पति तिवारी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सात कार्य दिवसों में योगदान समर्पित करने का निर्देश दिया गया परन्तु इसके बावजूद श्री राकेश पति तिवारी द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया। फलतः अधिसूचना में वर्णित कंडिका-4 के आलोक में इनकी नियुक्ति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
संजय कुमार उपाध्याय,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 427-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>